

UN110001

B.Com. (I Year) Main Examination, 2026

Commerce

Major-I

Financial Accounting

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 70

नोट : सभी तीनों खण्डों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंकों का विभाजन खण्डों के समक्ष दिया गया है।

Note : Attempt all the three sections as directed. Distribution of marks is given against each section.

खण्ड-‘अ’

Section-‘A’

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

(Objective Type Questions)

[5 × 1 = 5]

नोट : निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

Note : Attempt all the following questions. Each question carries 1 mark.

[2]

1. सही उत्तर का चयन कीजिए-

Choose the correct answer-

(i) पूंजी खाता है।

- (A) व्यक्तिगत
- (B) वस्तुगत
- (C) नाममात्र
- (D) कोई नहीं

Capital A/c is

- (A) Personal A/c
- (B) Real A/c
- (C) Nominal A/c
- (D) None of these

(ii) हास मानक लेखांकन में आता है।

- (A) मा.ले.2
- (B) मा.ले.3
- (C) मा.ले.6
- (D) मा.ले. 10

Depreciation come in Accouting Standard

- (A) AS 2
- (B) AS 3
- (C) AS 6
- (D) AS 10

(iii) देनदार प्रणाली में शाखा खाता है।

- (A) वास्तविक खाता
- (B) व्यक्तिगत खाता
- (C) नाममात्र खाता
- (D) कोई नहीं

Branch Account under debtor System is

- (A) Real A/c

[3]

(B) Personal A/c

(C) Nominal A/c

(D) None of these

(iv) गैर व्यापारिक संस्था में आजीवन सदस्यता शुल्क है

- (A) पूंजीगत
- (B) आयगत
- (C) दोनों
- (D) कोई नहीं

Life member fees & Non Trading concerns is

- (A) Capital
- (B) Revenue
- (C) Both
- (D) None of these

(v) जर्नल एंट्री को समय समय पर पोस्ट करने के लिए किस पुस्तक का प्रयोग किया जाता है।

- (A) बिल पुस्तक
- (B) रोकड पुस्तक
- (C) खाता बही
- (D) तलपट

Which register is used to post the journal entries periodically.

- (A) Bill book
- (B) Cash book
- (C) Ledger
- (D) Trail Balance

खण्ड- 'ब'

Section- 'B'

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

[6]

अथवा

OR

तलपट से आप क्या समझते हैं? इसकी विधियों में को समझाइये।
What do you understand by Trail balance? Explain its method.

इकाई - II

Unit - II

3. 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन रु 20000 में क्रय किया। 1 जून 2021 को दूसरी मशीन रु 45000 में क्रय किया। 1 जन 23 को प्रथम मशीन को रु 12000 में बेचा तथा इसी दिन नयी मशीन रु 15000 में क्रय किया क्रमागत शेष पद्धति से 10 % प्रतिवर्ष हास लगाकर तीन वर्षों का मशीन खाता बनाइये।

On 1 April 2020 A machine purchased Rs. 20000. On 1 June 2021 second Machine purchased Rs. 45000. First Machine sold Rs. 12000 on 1 Jan 2023 and same day New Machine purchased R. 15000 prepared Machinery account for three year by diminishing balance method @ 10. PA.

अथवा

OR

टिप्पणी लिखिए: (i) अधिकार शुल्क (ii) लघुकार्य

Write Note on (i) Royalty (ii) short working

Unit - III

4. शाखा खाता क्या है? इसके प्रकारों को समझाइये।

What is branch account? Explain its types.

अथवा

OR

C-13 (737/2000)

UN110001

[7]

निम्न से विभागीय लाभ हानि खाता बनाइये।

	विभाग 'अ'	विभाग 'ब'
प्रा० रहितया	रु 10,000	रु 15,000
क्रय	रु 50,000	रु 60,000
विक्रय	रु 1,20,000	रु 160,000
अंतिम रहितया	रु 15,000	रु 18,000
प्रत्यक्ष व्यय	रु 5,000	रु 12,000

अप्रत्यक्ष व्यय जिन्हें विक्रय अनुपात में विभाजित करना है निम्न है:-

वेतन	रु 14,000
बिक्री व्यय	रु 35,000
विज्ञापन	रु 7,000
हूबत श्रृण	रु 3,500

Prepared Departmental Profit & Loss a/c from the following.

C-13 (737/2000)

UN110001

[P.T.O.]

[4]
(Short Answer Type Questions)

नोट : सभी पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है शब्द सीमा 250 शब्द।

Note : Answer all five questions. It is compulsory to attempt one question from each unit. Each question is of 5 marks. Word limit is 250 words.

इकाई - I

Unit - I

2. निम्न सूचनाओं से तीन खाने वाली रोकड़ बही बनाइये।

	रु
1 जन रोकड़ शेष	15,000
1 जन बैंक शेष	5,000
4 जन नकद विक्रय	20,000
8 जन नकद क्रय	10,000
12 जन राम को चैक से भुगतान किया (बट्टा 100)	2,900
18 जन वेतन चैक से दिया	2,500
20 जन बैंक ब्याज	1,000
25 जन हरि से चैक प्रदान किया (बट्टा 50)	2,550
30 जन व्यापार के लिए बैंक से निकाले	4,000
31 जन बैंक में जमा किया।	1,200

C-13 (737/2000)

UN110001

[5]

Prepare Triple column cash book from the following information.

	रु
1 Jan Cash in hand	15,000
1 Jan Cash at bank	5,000
4 Jan Cash Sales	20,000
8 Jan Cash Purchase	10,000
12 Jan Paid to Ram By cheque (dist R. 100)	2,900
18 Jan Salary Paid by Cheque	2,500
20 Jan Interest from Bank	1,000
25 Jan cheque received from Hari (Dist R. 50)	2,550
30 Jan Cash withdrew from bank for office	4,000
31 Jan Deposited in to Bank	1,200

C-13 (737/2000)

UN110001

[P.T.O.]

	Dept 'A'	Dept 'B'
Op Stock	रु 10,000	रु 15,000
Purchase	रु 50,000	रु 60,000
Sales	रु 1,20,000	रु 160,000
Clo. Stock	रु 15,000	रु 18,000
Direct Exp.	रु 5,000	रु 12,000

Indirect Expenses which are divided in sales ratio as follows:

Salary	रु 14,000
Sales Exp.	रु 35,000
Advertisement	रु 7,000
Bad debts	रु 3,500

इकाई - IV

Unit - IV

3 (737/2000)

UN110001

5. विनियोग क्या है? ब्याज सहित क्रय तथा ब्याज सहित विक्रय को समझाइये।

What is investment? Explain cum interest Purchase and cum interest sales.

अथवा

OR

निम्न प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाइये।
31 मार्च 2024-25 के लिए

राष्ट्रीय प्राप्तियाँ	राशि	राष्ट्रीय भुगतान	राशि
शेष ला/ग	15,000	बेरान (10 माह)	20,000
चंदा प्राप्त 2023-24 1500 2024-25 40,000 2025-26 3,500	45,000	किराया (15 माह)	15,000
प्रवेश शुल्क	5,000	सामान्य व्यय	10,000
दान	10,000	फर्नीचर	25,000
आजीवन सदस्यता शुल्क	8,000	ह्यूमा व्यय	2,000
ब्याज प्राप्त	12,000	मनोरंजन व्यय	8,000
		विनियोग	12,000
		शेष लो/ग	3,000
योग	95,000	योग	95,000

समायोजन (i) उपार्जित चंदा 2500/

[10]

(ii) फर्नीचर पर हास 10% वार्षिक

(iii) प्रवेश शुल्क व दान आयगत है।

Prepare Income & Expenditure from the following receipt & payment A/c

For 31 st March 2024-25

All Receipts	Amt	Payments	Amt
To Bal b/d	15,000	By Salary (10 Month)	20,000
To subs received 2023-24 1500 2024-25 40,000 2025-26 3,500	45,000	By Rent (15 Month)	15,000
To Entry Fees	5,000	By Gen. Exp.	10,000
To Donation	10,000	By Furniture	25,000
To life Member fees	8,000	By Drama Exp	2,000
To Interest	12,000	By Entertainment	8,000
		By Investment	12,000
		By Bal c/d	3,000
Total	95,000	Total	95,000

Adjustments (i) Accrued subscription Rs. 2500

(ii) Dep on furniture @ 10% P.A.

(iii) Entry fees & Donation is revenue.

इकाई - V

C-13 (737/2000)

UN110001

[11]

Unit - V

6. टैली में एकाउंटिंग वाउचर को समझाइये।

Explain accounting vouchers in Tally.

अथवा

OR

टैली में कंपनी को बनाने में प्रक्रिया को समझाइये।

Explain the procedure of create the company in Tally.

Section- 'C'

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

[10×4=40]

नोट : निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर 500 शब्दों में दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

Note: Answer any 4 out of 7 questions in 500 words. Each question carries 10 Marks.

7. निम्न तलपट से मि. आय का 31 मार्च 2025 को अंतिम खाते तैयार कीजिए।

C-13 (737/2000)

UN110001

[P.T.O.]

विवरण	मा. सं.	राशि रु.	राशि रु.
विवरण			1,40,000
विवरण मा. सं. राशि		1,00,000	-
उ. वि. रा. राशि		40,000	-
राशि		10,000	-
विवरण		20,000	-
मा. सं. वि. रा.		15,000	-
मा. सं. राशि		-	18,000
राशि		80,000	
राशि		20,000	
राशि		-	82,000
राशि		-	50,000
राशि		5,000	-
राशि	राशि	2,90,000	2,90,000

समायोजन : 1 स्थायी सम्पत्तियां पर 10% हास
2. अदत्त वेतन रु 5000 तथ पूर्वदत्त किराया रु 4000
3. पूंजी पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष
4. आहरण पर ब्याज रु 2000

Prepare Final account of Mr. Ajay on 31 March 2025 from the following trail Balance.

$$\begin{array}{r} 5000 \\ + 200 \\ \hline 5200 \end{array}$$

Parti	L/Fo	Amount Dr.	Amount Cr.
Sales		-	1,40,000
Cost & Goods Sold		1,00,000	-
Closing stock		40,000	-
Salary		10,000	-
Rent		20,000	-
Discount Allowed		15,000	-
Discount Received		-	18,000
Fixed assest		80,000	-
Debtor		20,000	-
Creditor		-	82,000
Capital		-	50,000
Drawaing		5,000	
	Total	2,90,000	2,90,000

Adjustments : (i) Depreciation on fixed Assets @ 10% PA

(ii) outstanding salary ₹ 5,000 and prepaid Rent ₹ 4,000

(iii) Interest on capital @ 5%

(iv) Interest on Drawing ₹2,000

8. सहायक पुस्तक से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों को समझाइये।

What do you understand by subsidiary book? Explain its

types.

9. मि० अ ने एक खान 100 वर्षों के पट्टे पर लिया जिस पर अधिकार शुल्क 2 रु प्रतिटन तला न्यूनतम किराया 20000 प्रति वर्ष है लघुकार्य की पूर्ति पट्टे के प्रथम चार वर्षों में की जा सकती है पिछले 5 वर्षों का उत्पादन निम्न है।

प्रथम वर्ष	5000 टन	तृतीय वर्ष	10000 टन
द्वितीय वर्ष	1000 टन	चतुर्थ वर्ष	12000 टन
तथा पंचम वर्ष	14000 टन		

भूस्वामी खाता, अधिकार शुल्क खाता तथा लघुकार्य खाता 'अ' की पुस्तक में बनाइये।

Mr. A Leased a mine for 10 year with royalty Rs. 2 per ton and minimum rent Rs. 20000 PA. Short working recouped, first for year. out put Last five year as follows.

First year	5000 Ton	Third year	10000 Ton
Second year	7000 Ton	Fourth year	12000 Ton
Fifth year	14000 Ton		

Prepare Land Lord a/c, Royalty a/c and short working all in the book of Mr. A.

10. निम्न सूचनाओं से शाखा खाता बनाइये

1 अप्रैल रहतिया	रु 15000
2 अप्रैल देनदार	रु 20000
शाखा को प्रेषित माल	रु 15000
शाखा के व्यय मुख्य कार्यालय ने भुगतान किया:-	
वेतन	रु 5,000
मजदूरी	रु 3,000
सामान्य व्यय	रु 2,000

नकद विक्रय	रु 80000
उधार विक्रय	रु 180,000
बटटा दिया	रु 1,000
विक्रय वापसी	रु 3,000
इबत ऋण	रु 2,000
देनदार से प्राप्त	रु 1,50,000
31 मार्च को रहतिया	रु 20,000

Prepare the branch account from the following.

Inventories on April	Rs 15,000
Debtor on 1 April	Rs 20,000
Good sent to branch	Rs. 2,00,000
Expenses paid by H.O. & branch :-	
Salary Rs. 5000	
Wages Rs. 3000	
General Rs. 2,000	

Cash Sales	रु 80000
Credit sales	रु 180,000
Discount allowed	रु 1,000
Sales return	रु 3,000
Bad debts	रु 2,000
Cash from	रु 1,50,000
Investment on 31 Mar	रु 20,000

11. गैर-व्यापारिक संगठन से आप क्या समझते हैं? इसको विशेषताएँ तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

What do you understand by Non-profit organisation?
Explain its characteristic and objects.

12. टिप्पणी लिखिए

- (i) एकाउंटिंग फिचर
- (ii) स्टॉक आइटम

Write Note

- (i) Accounting teachers
- (ii) Stock items

13. कम्प्यूटराइज्ड एकाउंटिंग के चरणों को समझाइये।

Explain the steps in computerized accounting.
